

भारत सरकार
पर्यटन मंत्रालय
लोक सभा

मौखिक प्रश्न सं. *169

सोमवार, 19 दिसम्बर, 2022/28 अग्रहायण, 1944 (शक)
को दिया जाने वाला उत्तर

रुइया फोर्ट मेमोरियल को केंद्रीय पर्यटन सूची में शामिल करना

***169. श्री अशोक कुमार रावत:**

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के मिसरिख संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत हरदोई जिले में राजा नरपति सिंह रुइया फोर्ट मेमोरियल, माधोगंज के किले को, जिसे राजा नरपति सिंह की स्मृति में बनवाया गया था जो 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हुए थे, विकसित करने और इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कर इसे स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर पर्यटन स्थलों की केंद्रीय सूची में शामिल करने के लिए कोई कदम उठाया गया है या उठाए जाने का विचार है; और
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) और (ख) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

रूइया फोर्ट मेमोरियल को केंद्रीय पर्यटन सूची में शामिल करने के संबंध में दिनांक 19.12.2022 के लोक सभा के मौखिक प्रश्न सं. *169 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में
विवरण

(क) और (ख) : स्वदेश दर्शन योजना के आध्यात्मिक परिपथ के अंतर्गत वर्ष 2016-17 में 67.51 करोड़ रु. की संशोधित लागत से उत्तर प्रदेश के मिसरिख को 'बिजनौर - मेरठ - कानपुर - कानपुर देहात - बांदा - गाजीपुर - सालेमपुर - घोसी - बलिया - अम्बेडकर नगर - अलीगढ़ - फतेहपुर - देवरिया - महोबा - सोनभद्र - चंदौली - मिसरिख - भदोही का विकास' परियोजना के तहत विकास हेतु शामिल किया गया है। इस परियोजना के तहत किए जाने वाले कार्यों में 1.68 करोड़ रु. की राशि से मिसरिख में चक्रपीठ, सतरूपा अयोध्या मंदिर, दधीचि आश्रम और देवपुरी में हस्तक्षेप शामिल हैं। पर्यटन मंत्रालय को रूइया, माधोगंज में राजा नरपत सिंह किले के विकास के लिए उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव नहीं मिला है तथापि उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि वर्ष 2018-19 में स्वीकृत उनकी राज्य क्षेत्र की योजना के तहत रूइया फोर्ट मेमोरियल परिसर, माधोगंज में 44.59 लाख रु. की लागत से बैठक कक्ष और स्नानगृह आदि युक्त अतिथि कक्ष के विकास का कार्य पूरा हो गया है।
